

प्रेस नोट दिनांक-23.07.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में गौरी गैंग की धरपकड़ हेतु चित्रकूट पुलिस द्वारा जंगलों में लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक-23.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में थाना रैपुरा पुलिस द्वारा हनुमानगंज, सुजानगंज, लौरी एवं डभौरा के जंगलों में तथा श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा के नेतृत्व में पीएसी एवं थाना बहिलपुरवा पुलिस टीम ने छोटी बिलहरी के जंगलों गौरी यादव गैंग की धरपकड़ हेतु कॉम्बिंग की गयी।

(2). दिनांक-22.07.2021 से 28.07.2021 तक मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में यातायात प्रभारी श्री घनश्याम पाण्डेय एवं टीएसआई श्री योगेश कुमार यादव द्वारा कर्वी शहर में ट्राफिक चौराहा, पुरानी कोतवाली चौराहा एवं बेड़ी पुलिया तिराहा पर वाहन चालकों एवं आम जनमानस को सड़क पर चलते समय बरती जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में बताया गया जैसे कि वाहन चलाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट अवश्य लगाए, तेज गति से वाहन न चलाए, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कतई न करें, शराब का सेवन कर वाहन न चलाए, ओवरटेक करते समय सावधानी बरतें जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। हमेशा वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। वाहन चालकों को यातायात जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये तथा सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाये। यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 03 सवारी, बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, प्रेशर हॉर्न, तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न वाहनों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया एवं 56 वाहनों से 56000 रुपये पेण्डिंग ई-चालान किया गया एवं बिना मास्क 22 व्यक्तियों से 4000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

(3). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 23.07.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम रामनगर में, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बाजार, बस स्टैण्ड, डॉट पुल के पास कस्बा मानिकपुर में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम दीपू कोलान में, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा बाजार, बसस्टैण्ड, बिसण्डा तिराहा, कस्बा पहाड़ी में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा बाजार, बस स्टैण्ड, बाजपेयी तिराहा, कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा परानू बाबा मन्दिर में भ्रमण कर एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैंड बाजार रोड मऊ शिवपुर तिराहा इंडियन बैंक रामलीला मैदान का भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा भैरोपागा, चुंगी चौराहा, एवं गंगाजी रोड में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।